

# ARVIND FASHIONS LIMITED

A MEMBER OF THE LALBHAI GROUP

Corporate Office: Du Parc Trinity, 8<sup>th</sup> Floor, 17, M.G Road, Bangalore – 560 001  
Tel: +91-80-4155 0601, Fax: 91-80-4155 0651  
Website: <http://www.arvindfashions.com>

July 13, 2020

To,

**BSE Limited**  
The Listing Department  
Phiroje Jeejeebhoy Towers  
Dalal Street, Mumbai- 400 001  
Maharashtra, India.

**National Stock Exchange of India Limited**  
Manager - Listing Compliance  
'Exchange Plaza'. C-1, Block G,  
Bandra Kurla Complex, Bandra (E),  
Mumbai - 400 051

Security Code : 542484  
Security ID : ARVINDFASN

**Symbol:** ARVINDFASN

Dear Sir,

**Ref.: Rights Issue of Equity Shares of Arvind Fashions Limited (the "Company")**

**Sub.: Filing of advertisement pursuant to provisions of Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015**

---

Pursuant to provisions of Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we are submitting herewith the e-clippings of advertisement published in connection with the Rights Issue of the Company, in the following newspapers on July 13, 2020:

1. Financial Express - (English) National daily - All Editions
2. Janasatta - (Hindi) National Daily - All Editions
3. Financial Express - (Gujarati) - Regional Edition

Kindly take the same on record.

Thanking You.

Yours Faithfully,

**For Arvind Fashions Limited**

**Vijay Kumar B S**  
Company Secretary and Compliance Office

*Encl.: As Above*

**Arvind**

Regd Office: Main Building, Arvind Limited Premises, Naroda Road, Ahmedabad – 380 025.  
CIN: L52399GJ2016PLC085595



## From the Front Page

## No freeze, but firms cautious on hiring

"Companies are looking out for newer talents passively, they are engaging with the candidates by offering them freelance opportunities to work on some projects or interviewing them and building their talent pipeline. Companies that are seeing good bottomlines, like online solutions and technology providers, are honouring their previously-made offers and are even hiring new talent to meet their requirements," Gupta said.

Kamal Karanth, co-founder of Xpheno, said June had seen some marquee enterprises revoking fresher offers and postponing hiring plans for freshers. "Continued trimming of workforce by local enterprises clubbed with challenging situations for expatriates, has impacted the pace and volume of overall hiring," he said.

Full-time opportunities dropped by 18% in June over those in May. Xpheno's report for April and May had reflected a general upward movement in the opportunities for internships and part timers. "There has been a reversal on this front in June, with a little over 40% drop in the numbers," Karanth said. Companies that FE spoke to said all the offers made prior to Covid-19 or even during the pandemic are being honoured.

However, right now, while some firms continue to recruit across all levels, others are being selective and some have held back.

Supratik Bhattacharya, chief talent officer, RPG Group, told FE the group continues to hire talent with the longer-term perspective for supplementing and expanding capabilities in new markets and functions. "We are keen on hiring high-quality, digital and technology talent across levels in our group companies," he said. While the company is taking new hires on board as planned, it has hired seven CXOs across group companies in addition to 58 graduates from Tier-1 business schools.

According to HR consultants, lateral hiring, for now, is more about strategising and planning and less about actual hiring. To be sure, on a recent earnings call, Cognizant CFO Karen McLoughlin said the company is freezing lateral hiring across all functions. However, it will continue to move forward with sales hiring plan and other key positions and honour all outstanding accepted offers. "Additionally, we have confirmed that we will honour the more than 20,000 campus offers we have made," McLoughlin said.

Tata Steel has also put its hiring plans on hold, though it is honouring all commitments made before or during the pandemic. TV Narendran, CEO and MD, Tata Steel, said the company normally takes a fresh batch of graduates every year. "We have honoured those commitments, they have been inducted into Tata Steel virtually," he said.

"We are not hiring just now as we are looking at how to make more productive use of the resources that we already have," Narendran added.

## After recovering to half of normal, states' tax revenue plateaus

"This sharp rise in borrowings reflects the shock to the revenues of the state governments, given the decline in the consumption of several non-essential goods and services that is expected to have taken place during the lockdown period," rating agency IcrA noted.

The Centre has tried to mitigate the state governments' pain from an unmanageable revenue decline in April-May by generously transferring almost double the gross amount it collected during the period to the states as their share of central taxes. However, this has proven to be unsustainable; June tax transfers to states are understood to be 9% less

than the monthly transfer of ₹46,083 crore in the April-May period, at around ₹42,000 crore.

A senior official from the UP government told FE that the state collected ₹8,849 crore or 61% of the budgeted monthly OTR target of ₹14,447 crore in June compared with just about ₹5,597 crore or 41% of the target collected in May (15% April). The quarterly achievement of the state's OTR was about 38% of the target in Q1FY21.

Odisha, which garnered about 20% of monthly revenue targeted for April and 25% of the target in May, collected around 50% in June, the state's finance secretary, Ashok Meena, said. However, the overall own revenue of the state was over 100% in the June quarter of this fiscal compared with the year-ago quarter, thanks to a one-time windfall from mining auctions, Meena said. The own revenues of the state in Q1FY21 were 74% of the receipts in the year-ago quarter. "Unless the economy returns to full normalcy, the own tax revenue position will continue to be bad," Meena said.

**The Centre has tried to mitigate the state governments' pain from an unmanageable revenue decline in April-May by generously transferring almost double the gross amount it collected during the period to the states as their share of central taxes**

Himachal Pradesh, which reported 10% of targeted tax revenue collections in April, achieved over 50% in June, state finance secretary Prabodh Saxena said, but he added VAT and excise revenues were still subdued. The Q1FY21 revenues of the state were around 50% of the collections achieved in the corresponding quarter last year.

"First seven days of July have been better, but it needs to be seen if this will be sus-

tained or was a one-time pent up demand release," Saxena said. Car and two-wheeler sales have increased as people are now not prepared to use public transport, he said. Himachal Pradesh, which has not tapped the market for funds so far in this fiscal, plans to accelerate borrowings in the coming months if the GST compensation arrears are not released.

Despite the recent release of ₹36,500 crore by the Centre from the integrated GST pool, the state governments will require to be paid a whopping ₹80,000 crore more as compensation for their state goods and service tax (S-GST) shortfall in the March-May period, going by the formula of 14% assured annual revenue growth.

## ORIENT PAPER &amp; INDUSTRIES LIMITED

(CIN: L21011OR1936LC000117)

Registered office: Unit - VIII, Plot No. 7, Bhojnagar, Bhubaneswar - 751012 (Odisha)  
Ph: (0674) 2396930, Fax: (0674) 2396364

Transfer of Unclaimed Dividend and corresponding Equity shares of the Company to the Investor Education and Protection Fund ("IEPF")

Shareholders are hereby informed that Unpaid Dividend for the financial year 2012-13 and the corresponding equity shares of the Company in respect of which dividend have remained unpaid or unclaimed for seven consecutive years or more shall be due for transfer to the demat account of the IEPF Authority on 21.09.2020, pursuant to the provisions of section 124 of the Companies Act, 2013 read with the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules 2016. The Company has sent individual communication to the concerned shareholders whose shares are liable to be transferred to IEPF Authority, advising them to claim their unclaimed dividends by 21.09.2020. The Company has uploaded details of the concerned shareholders on its website [www.orientpaperindia.com](http://www.orientpaperindia.com).

The shareholders may note that even upon transfer of unpaid dividend and corresponding shares to the IEPF, they can claim the said shares alongwith dividend(s) from IEPF for which detailed procedure and requirements are available at [www.iepf.gov.in](http://www.iepf.gov.in). For any further information in this regard, the shareholders may contact any of the following addresses:

<p>Orient Paper &amp; Industries Limited Birla Building, 9th Floor, 9/1, R.N. Mukherjee Road, Kolkata - 700001 Phone: +91 33 4082 3700 / 2220 0600 Fax: +91 33 22430490 Email: <a href="mailto:cosec@orientpaperindia.com">cosec@orientpaperindia.com</a></p>	<p>KFin Technologies Private Limited Unit: ORIENT PAPER &amp; INDUSTRIES LIMITED Selenium Tower B, Plot 31-32, Gachibowli Financial district, Nanakramguda, Hyderabad-500032 Toll Free No. 18003454001 Email: <a href="mailto:einward.ris@kfintech.com">einward.ris@kfintech.com</a> Website: <a href="http://www.KFintech.com">www.KFintech.com</a></p>
---	--

For ORIENT PAPER & INDUSTRIES LTD  
(P.K. SONTHALIA)  
President (Finance) & CFO

Place: Kolkata

Date: 10-07-2020

## ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE

ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED

CIN-L66010MH2000PLC127837

Registered Office: 1089, Appasaheb Marathe Marg, Prabhadevi, Mumbai-400 025, India. Tel: (022) 5039 1600, Fax: (022) 2422 4484  
Email: [investor@iciciprulife.com](mailto:investor@iciciprulife.com), Website: [www.iciciprulife.com](http://www.iciciprulife.com)NOTICE OF THE 20<sup>th</sup> ANNUAL GENERAL MEETING TO THE MEMBERS

Dear Member(s),

- Notice is hereby given that the **Twentieth Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held on Friday, August 7, 2020 at 3.30 p.m. IST through Video Conference (VC)/Other Audio Visual Means (OAVM)** to transact the business as set out in the Notice of the AGM which will be sent to the members at their registered email address in due course. The AGM will be conducted in compliance with the relevant provisions of the Companies Act, 2013, Securities and Exchange Board of India (SEBI) (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and circular dated May 5, 2020 read with circulars dated April 8, 2020 and April 13, 2020 issued by the Ministry of Corporate Affairs ('MCA Circulars'), without the presence of the Members at a common venue.
- The Notice of the AGM along with the Annual Report 2019-20 will be sent only by electronic mode to those members whose email address is registered with the Company/Depositories in accordance with the aforesaid MCA Circulars and SEBI Circular dated May 12, 2020 ('SEBI Circular'). Members may note that the Notice of the AGM and the Annual Report 2019-20 will also be available on the Company's website at [www.iciciprulife.com](http://www.iciciprulife.com) and the websites of the stock exchange(s), i.e., BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) and [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com) respectively. Members can attend and participate in the AGM through VC/OAVM facility only. The instructions for joining the AGM will be provided in the Notice of the AGM.
- Members holding shares in dematerialised form are requested to get their email address registered with the concerned depositories. Members holding shares in physical form are requested to furnish their email address and mobile number with the Company's Registrar & Share Transfer Agent, KFin Technologies Private Limited, at [einward.ris@kfintech.com](mailto:einward.ris@kfintech.com) with a copy to the Company at [investor@iciciprulife.com](mailto:investor@iciciprulife.com) to get their email address registered. Members are requested to quote their DP ID & Client ID/Folio No., in case shares are held in dematerialised/physical form, as the case may be, in all correspondence with the Registrar and Share Transfer Agent and/or the Company.
- The Company is providing remote e-voting facility ('remote e-voting') to all its members to cast their votes on all resolutions set out in the Notice of the AGM. Additionally, the Company is providing facility of voting through e-voting system during the AGM ('e-voting'). Detailed procedure for remote e-voting/e-voting will be provided in the Notice of the AGM.

For ICICI Prudential Life Insurance Company Limited

Mumbai  
July 13, 2020Vyoma Manek  
Company Secretary  
ACS 20384

## CK BIRLA GROUP



## Orient Electric Limited

CIN: L31100OR2016PLC025892

Registered Office:

Unit VIII, Plot No. 7, Bhojnagar Bhubaneswar-751012, Odisha  
Tel: 0674-2396930 | Fax: 0674-2396364

Corporate Office:

240, Okhla Industrial Estate Phase-III, Delhi-110020  
Tel: 011-40507000 | Fax: 011-40507004E-mail: [investor@orientelectric.com](mailto:investor@orientelectric.com), Website: [www.orientelectric.com](http://www.orientelectric.com)Notice of the 4<sup>th</sup> Annual General Meeting and E-Voting Instructions

Notice is hereby given that the 4<sup>th</sup> Annual General Meeting ('AGM') of the shareholders of **Orient Electric Limited** (the 'Company') will be held on **Friday, August 07, 2020 at 11:00 A.M. (IST)** through Video Conferencing ('VC') / Other Audio Visual Means ('OAVM'). In compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 (the 'Act'), rules made thereunder, Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ('Listing Regulations') and General Circular number 20/2020 dated May 05, 2020 read with Circular numbers 14/2020 dated April 08, 2020, 17/2020 dated April 13, 2020 and all other applicable circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs, and Circular number SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020 issued by the Securities and Exchange Board of India (hereinafter collectively referred to as 'Circulars'), 4<sup>th</sup> AGM of the Company is being convened to be held through VC / OAVM without the physical presence of shareholders at a common venue, to transact the business as set forth in the Notice of the AGM. The proceedings of the AGM shall be deemed to have been conducted at the Registered Office of the Company.

In compliance with the Circulars, electronic copies of the Notice of the 4<sup>th</sup> AGM along with Annual Report for the financial year 2019-20 have been sent on July 11, 2020 to all the shareholders whose email id's are registered with the Company's Registrar and Share Transfer Agent ('RTA') and / or Depository Participant(s). The requirement of sending physical copy of the Notice convening 4<sup>th</sup> AGM along with Annual Report for the financial year 2019-20 has been dispensed away with vide above referred Circulars. These documents are also available on the website of the Company at [www.orientelectric.com](http://www.orientelectric.com), websites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) and [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com) respectively and on the website of Company's RTR, KFin Technologies Private Limited ('KFin Tech') at <https://evoting.karvy.com>.

As per the provisions of Section 103 of the Act, shareholders attending the AGM through VC / OAVM shall be counted for the purpose of reckoning the quorum. **Facility for appointing the proxy will not be available for this AGM.** The Company has engaged the services of KFin Tech as the authorised agency for conducting the AGM through VC/ OAVM and providing e-voting facility. Shareholders are requested to visit <https://emeetings.kfintech.com/> to attend the AGM.

In compliance with the provisions of Section 108 of the Act read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules 2014, Circulars and Regulation 44 of the Listing Regulations, the Company is providing the facility to its shareholders to cast their votes electronically on all the resolutions as set out in the Notice of the AGM. Shareholders holding shares either in physical form or dematerialized form, as on the cut-off date (July 31, 2020), would be eligible to attend the AGM through VC / OAVM and cast their votes electronically through the electronic voting system provided by KFin Tech ('Insta Poll').

Shareholders are hereby informed that:

- The business as set forth in the Notice of the AGM may be transacted either through remote e-voting or Insta Poll during the AGM.
- The remote e-voting shall commence on **Tuesday, August 04, 2020 (9:00 A.M. IST)** and ends on **Thursday, August 06, 2020 (5:00 P.M. IST)**. The remote e-voting module shall be disabled for voting thereafter, by KFin Tech, and remote e-voting shall not be allowed beyond the said date and time.
- The cut-off date for determining the eligibility to vote by remote e-voting or by Insta Poll at the AGM shall be Friday, July 31, 2020.
- Any person, who acquires shares of the Company and becomes a shareholder post-dispatch of the Notice of the AGM and holds shares as on the cut-off date i.e. Friday, July 31, 2020, may approach Company / RTR for obtaining login ID and password, and to cast his / her vote.
- The voting rights of shareholders shall be in proportion to the equity shares held by them in the paid-up equity share capital of the Company as on Friday, July 31, 2020.
- The facility for voting will also be made available during the AGM, and those shareholders present in the AGM through VC/ OAVM, who have not cast their vote on the resolutions through remote e-voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through Insta Poll during the AGM. The shareholders who have cast their votes by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their votes again.
- Once the vote on a resolution is cast by the shareholder, he/ she shall not be allowed to change it subsequently or cast the vote again.
- Only persons whose name is recorded in the register of shareholders or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date shall be entitled to avail the facility of remote e-voting or e-voting during the AGM.
- The manner of voting remotely for shareholders holding shares in dematerialized mode, physical mode and for shareholders who have not registered their email addresses is provided in the Notice of the AGM. The details will also be made available on the website of the Company. Shareholders are requested to visit [www.orientelectric.com](http://www.orientelectric.com) to obtain such details.
- Shareholders who have not registered their email addresses are requested, in case of holding shares in dematerialized mode, to register/update their email addresses with their respective depository participant(s) and in case of holding shares in physical mode, to register/update their email addresses with RTA by clicking the link: [https://ris.kfintech.com/email\\_registration/](https://ris.kfintech.com/email_registration/) for receiving the Notice of the AGM, Annual Report and other communications electronically or alternatively by writing an email to RTR at [einward.ris@kfintech.com](mailto:einward.ris@kfintech.com) providing the name of the shareholder, folio number and attaching self-attested scanned copies of their share certificate, PAN card and Aadhar to receive copies of the Notice of the 4<sup>th</sup> AGM along with Annual Report for the financial year 2019-20, instructions for remote e-voting and for participation in the AGM through VC/ OAVM.
- If a Shareholder is already registered with KFin Tech for e-voting, he/ she can use his/her existing user ID and password to cast the vote through remote e-voting.
- In case of query relating to voting by electronic means or for attending the AGM through VC / OAVM, please refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for shareholders and e-voting user manual available through a dropdown menu in the 'Downloads' section available at RTR's website [www.evoting.karvy.com](http://www.evoting.karvy.com) or call KFin Tech at the toll free no.: 18003454001, or send email to [emeetings@kfintech.com](mailto:emeetings@kfintech.com). Any grievance related with e-voting or attending the AGM or voting during AGM through Insta Poll may be addressed to Mr. S V Raju, Deputy General Manager, KFin Technologies Private Limited, Unit: Orient Electric Limited, Selenium Tower B, Plot No. 31 & 32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda Hyderabad - 500 032, Ph: 91-40-6716 1559, Email: [einward.ris@kfintech.com](mailto:einward.ris@kfintech.com).

By order of the Board of Directors  
For Orient Electric LimitedSd/-  
Hitesh Kumar Jain  
Company SecretaryPlace: New Delhi  
Dated: July 11, 2020

## MASK INVESTMENTS LIMITED

CIN : L65993GJ1992PLC036653

REGD. OFFICE : 6<sup>th</sup> FLOOR, A/601-B, INTERNATIONAL TRADE CENTRE, MAJURA GATE, RING ROAD,  
SURAT - 395 002 (GUJARAT) INDIA. Ph: +91-261-2463261 / 62 / 63. Fax: +91-261-2463264.Email : [contact@maskinvestments.com](mailto:contact@maskinvestments.com), website : [www.maskinvestments.com](http://www.maskinvestments.com)

EXTRACT OF UNAUDITED STANDALONE FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30TH JUNE, 2020

PARTICULARS	STANDALONE		
	Quarter Ended	Quarter Ended	Year Ended
	30/06/2020	30/06/2019	31/03/2020
	(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)
<b>Total Income from Operations</b>	223.68	240.30	1,574.48
<b>Net Profit for the period (before Tax, Exceptional and / or Extraordinary Items)</b>	93.84	10.14	61.54
<b>Net Profit for the period before tax (after Exceptional and / or Extraordinary Items)</b>	93.84	10.14	61.54
<b>Net profit for the period after tax (after Exceptional and / or Extraordinary Items)</b>	93.84	8.19	41.62
<b>Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax))</b>	1,900.30	(2,914.59)	(11,866.00)
<b>Paid up Equity Share Capital</b>	30,515.00		
<b>Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in Balance sheet of previous year (as on 31/03/2020)</b>	22,127.00		
<b>Earning Per Share (of Rs.10/- each) (for continuing and discontinued operations)-</b>			
<b>(a) Basic (in Rs.) :</b>	0.031	0.003	0.014
<b>(b) Diluted (in Rs.) :</b>	0.031	0.003	0.014

**NOTE:**  
1. The above results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their meetings held on July 11, 2020.  
2. The above is an extract of the detailed format of Unaudited Standalone Financial Results for the Quarter ended 30th June, 2020 filed with stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the quarterly financial results is available on the Stock Exchange website i.e. [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com) and on the Company's website i.e. [www.maskinvestments.com](http://www.maskinvestments.com).

For MASK INVESTMENTS LIMITED  
Sd/-  
(NARAYAN SABOO)  
DIRECTOR

## CHITRALI PROPERTIES PRIVATE LIMITED

Registered Office: 93/ 5A, Erandwane, Pune 411 004.

CIN: U70109MH1995PTC094686

## EXTRACT OF STATEMENT OF FINANCIAL RESULTS FOR THE MARCH 31, 2020

Amount Rs. in Lakhs (except per share data)

Sr. No.	Particulars	Year ended	Year ended
		March 31, 2020	March 31, 2019
		Audited	Audited
1	Total Income From Operations	6,909.42	6,345.63
2	Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	(227.14)	(2,229.29)
3	Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(227.14)	(2,229.29)
4	Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(6.30)	(1,226.82)
5	Total Comprehensive Income for the period Comprising Profit/ (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)	(2.83)	(0.17)
6	Paid up Equity Share Capital	200.00	200.00
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve)	1,926.26	1,935.38
8	Net Worth	2,126.26	2,135.38
9	Paid up Debt Capital / Outstanding Debt	6,561.01	11,344.17
10	Outstanding Redeemable Preference Shares	6,561.01	630.05
11	Debt Equity Ratio	19.77	16.86
12	Earning per share (of Rs.10/- each for March 19 & Rs.10/- each for March 18) (for continuing and discontinued operations)		
	1. Basic	(0.31)	(61.34)
	2. Diluted	(0.31)	(61.34)
13	Capital Redemption Reserve	-	-
14	Debtenture Redemption Reserve	-	-
15	Debt Service Coverage Ratio	0.6938	0.0017
16	Interest Service Coverage Ratio	0.9024	0.0025

**NOTE**  
a) The above is an extract of the detailed format of half yearly and annual financial results filed with the Stock Exchange under Regulation 52 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements), Regulations, 2015. The full format of the half yearly and annual financial results is available on the website of Stock Exchange i.e. [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com)  
b) For the items referred in sub-clauses (a),(b),(d) and (e) of the Regulation 52(4) of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the pertinent disclosures have been made to the Bombay Stock Exchange and can be accessed on [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com)  
c) The above results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their respective meetings held on July 11, 2020.

Place : Pune  
Date : 11/07/2020For & on behalf of the Board of Directors  
sd/-Shashank Pathak  
Whole-time  
DIN: 07881789

This addendum to the Letter of Offer ("Addendum") is for information purposes only and does not constitute an offer or an invitation or a recommendation to purchase, to hold, to subscribe or sell either entitlements or securities. All capitalized terms used herein and not defined herein shall have the meaning assigned to them in the letter of offer dated March 18, 2020 (the "Letter of Offer") and the addendum to the Letter of Offer dated June 23, 2020, filed with the stock exchanges, namely BSE Limited ("BSE") and National Stock Exchange of India Limited ("NSE") and together with BSE, "Stock Exchanges") and the Securities and Exchange Board of India ("SEBI").

## ARVIND FASHIONS

## ARVIND FASHIONS LIMITED

Our Company was incorporated as 'Arvind J&M Limited' on January 5, 2016, as a public limited company under the Companies Act, 2013, pursuant to a certificate of incorporation issued by the Registrar of Companies, at Ahmedabad, Gujarat (the "RoC"). Pursuant to a resolution of our Shareholders dated September 26, 2016, the name of our Company was changed to 'Arvind Fashions Limited' and a fresh certificate of incorporation was issued by the RoC on October 14, 2016. For details, including reasons for changes in the name and registered office of our Company, see "History and Certain Corporate Matters" on page 133 of the Letter of Offer.

Corporate Identity Number: L52399GJ2016PLC085595

Registered Office: Main Building, Arvind Limited Premises, Naroda Road, Ahmedabad - 380 025, Gujarat, India;

Telephone: +91-79-30138000;

Corporate Office: 8th Floor, Du Parc Trinity, 17, M G Road, Bengaluru - 560 001, Karnataka, India | Telephone: +91-80-41550650

Contact Person: B S Vijay Kumar, Company Secretary and Compliance Officer

Email: [investor.relations@arvindbrands.co.in](mailto:investor.relations@arvindbrands.co.in) | Website: [www.arvindfashions.com](http://www.arvindfashions.com)

**PROMOTERS OF OUR COMPANY**  
AJRA SECURITIES PRIVATE LIMITED, AJRA BUSINESS VENTURES LLP, SANJAYBHAI SHRENIKHBAI LALBHAI, JAYSHREEBEN SANJAYBHAI LALBHAI, PUNIT SANJAY LALBHAI, KULIN SANJAY LALBHAI, POORVA PUNIT LALBHAI, JAINA KULIN LALBHAI, ISHAAN PUNIT LALBHAI, ANANYAA KULIN LALBHAI AND RUHANI PUNIT LALBHAI  
ISSUE OF UP TO 3,99,79,347 EQUITY SHARES WITH A FACE VALUE OF ₹ 4 EACH ("RIGHTS EQUITY SHARES") OF OUR COMPANY FOR CASH AT A PRICE OF ₹ 100 EACH INCLUDING A SHARE PREMIUM OF ₹ 96 PER RIGHTS EQUITY SHARE ("ISSUE PRICE") FOR AN AGGREGATE AMOUNT UP TO ₹ 399.79 CRORES ON A RIGHTS BASIS TO THE EXISTING EQUITY SHAREHOLDERS OF OUR COMPANY IN THE RATIO OF 62 RIGHTS EQUITY SHARES FOR EVERY 91 FULLY PAID-UP EQUITY SHARES HELD BY THE EXISTING EQUITY SHAREHOLDERS ON THE RECORD DATE, THAT IS ON MARCH 18, 2020 (THE "ISSUE"). THE ISSUE PRICE FOR THE RIGHTS EQUITY SHARES IS 25 TIMES THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES. FOR FURTHER DETAILS, SEE "TERMS OF THE ISSUE" ON PAGE 306 OF THE LETTER OF OFFER AND THE ADDENDUM TO LETTER OF OFFER DATED JUNE 23, 2020 ("ADDENDUM TO LOF").

**NOTICE TO THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF ARVIND FASHIONS LIMITED (THE "COMPANY")**  
This Addendum is being issued pursuant to provisions of Schedule IX (4) of the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018 as amended ("SEBI ICDR Regulations"). The Eligible Equity Shareholders of our Company should note the following development taken place post filing of the Letter of Offer:

Pursuant to approval granted by Board of Directors of our Company and of Arvind Lifestyle Brands Limited ("ALBL"), our wholly owned subsidiary, at their meetings held on February 21, 2020 and by shareholders of our Company vide special resolution dated March 26, 2020 passed through postal ballot, our Company and ALBL have executed business transfer agreements dated July 08, 2020 ("Business Transfer Agreements") with Arvind Youth Brands Private Limited ("AYBPL"), subsidiary of our Company, to transfer the wholesale and retail trading business under "Flying Machine" brand to AYBPL, on a going concern basis on terms and conditions mentioned therein. Pursuant to the Business Transfer Agreements, our Company and ALBL will receive lumpsum consideration of ₹ 61.90 crores and ₹ 151.35 crores (subject to working capital adjustments), respectively upon transfer and vesting of the business undertaking under "Flying Machine" brand.

Further, our Company has on July 09, 2020 entered into a Share Purchase Agreement and a Shareholders Agreement with AYBPL, ALBL and Flipkart India Private Limited wherein, Flipkart India Private Limited agreed to invest ₹ 260 crores to acquire a significant minority stake by acquiring the equity share and compulsory convertible preference shares of AYBPL, which will own the Flying Machine brand pursuant to the Business Transfer Agreements. The transaction is subject to customary conditions precedent.









**ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED**  
CIN:L66010M12000PLC127837

Registered Office: 1089, Appasahb Marathe Marg, Prabhadevi, Mumbai-400 025, India. Tel: (022) 5039 1600, Fax: (022) 2422 4484  
Email: investor@iciciprulife.com, Website: www.iciciprulife.com

**NOTICE OF THE 20<sup>th</sup> ANNUAL GENERAL MEETING TO THE MEMBERS**

Dear Member(s),

1. Notice is hereby given that the **Twentieth Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held on Friday, August 7, 2020 at 3.30 p.m. IST through Video Conference (VC)/Other Audio Visual Means (OAVM)** to transact the business as set out in the Notice of the AGM which will be sent to the members at their registered email address in due course. The AGM will be conducted in compliance with the relevant provisions of the Companies Act, 2013, Securities and Exchange Board of India (SEBI) (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and circular dated May 5, 2020 read with circulars dated April 8, 2020 and April 13, 2020 issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circulars"), without the presence of the Members at a common venue.
2. The Notice of the AGM along with the Annual Report 2019-20 will be sent only by electronic mode to those members whose email address is registered with the Company/Depositories in accordance with the aforesaid MCA Circulars and SEBI Circular dated May 5, 2020 ("SEBI Circular"). Members may note that the Notice of the AGM and the Annual Report 2019-20 will also be available on the Company's website at www.iciciprulife.com and the websites of the stock exchange(s), i.e., BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively. Members can attend and participate in the AGM through VC/OAVM facility only. The instructions for joining the AGM will be provided in the Notice of the AGM.
3. Members holding shares in dematerialised form are requested to get their email address registered with the concerned depositories. Members holding shares in physical form are requested to furnish their email address and mobile number with the Company's Registrar & Share Transfer Agent, KFin Technologies Private Limited, at einward.ris@kfinetech.com with a copy to the Company at investor@iciciprulife.com to get their email address registered. Members are requested to quote their DP ID & Client ID/Folio No., in case shares are held in dematerialised/physical form, as the case may be, in all correspondence with the Registrar and Share Transfer Agent and/or the Company.
4. The Company is providing remote e-voting facility ("remote e-voting") to all its members to cast their votes on all resolutions set out in the Notice of the AGM. Additionally, the Company is providing facility of voting through e-voting system during the AGM ("e-voting"). Detailed procedure for remote e-voting/e-voting will be provided in the Notice of the AGM.

For ICICI Prudential Life Insurance Company Limited

**Vyoma Manek**  
Company Secretary  
ACS 20384

Mumbai  
July 13, 2020

**SANGAL PAPERS LIMITED (CIN-L21015UP1980PLC005138)**  
REGD. OFFICE: VILL BHAINSA, 22KM STONE, MEERUT, MAWANA ROAD, MAWANA, UP-250 401  
PHONE: 01233-271515, 271137, e-mail: sangalinvestors1980@gmail.com, website: www.sangalpapers.com

**Statement of Audited Results for the Quarter and Year ended 31st March, 2020**

Particulars	(Rs. In Lakhs)				
	For The Quarter Ended		Year ended		
	31.03.20 Audited (refer note 4)	31.12.19 Unaudited	31.03.19 Audited (refer note 4)	31.03.20 Audited	
1 Revenue from operations	2,752.20	3,197.16	3,548.63	12,568.74	14,823.40
2 Other Income	53.24	15.81	21.61	83.05	114.96
3 <b>Total Income (+/-)</b>	<b>2,805.44</b>	<b>3,212.97</b>	<b>3,570.24</b>	<b>12,651.79</b>	<b>14,938.36</b>
4 <b>Expenses</b>					
(a) Cost of materials consumed	2,357.43	2,471.25	3,078.44	10,652.82	12,277.92
(b) Purchases of stock-in-trade	0.03	-	4.13	13.60	304.44
(c) Changes in inventories of finished goods, work-in-progress and stock-in-trade	(9.44)	137.22	6.42	2.79	(218.65)
(d) Employee benefits expense	181.71	200.74	208.67	775.52	747.48
(e) Finance Costs	47.01	52.72	22.52	196.73	167.22
(f) Depreciation and amortisation expense	31.86	35.76	31.96	129.32	117.80
(g) Other expenses	164.91	174.92	192.67	690.62	809.55
<b>Total Expenses</b>	<b>2,773.51</b>	<b>3,072.61</b>	<b>3,544.81</b>	<b>12,661.60</b>	<b>14,205.76</b>
5 Profit/(Loss) before exceptional items and tax (3-4)	31.93	140.36	25.43	190.39	732.60
6 Exceptional items	-	-	-	-	-
7 Profit before tax (5+6)	31.93	140.36	25.43	190.39	732.60
8 <b>Tax expenses</b>					
1) Current tax	32.84	0.22	17.16	33.14	154.55
2) MAT credit entitlement	(31.78)	-	(41.35)	(31.78)	(41.35)
3) Deferred tax	(15.56)	9.54	11.66	8.76	5.76
9 <b>Profit for the period (7-8)</b>	<b>46.43</b>	<b>130.60</b>	<b>37.96</b>	<b>180.27</b>	<b>613.64</b>
10 Profit/(Loss) from discontinuing operations	-	-	-	-	-
11 Tax expenses of discontinuing operations	-	-	-	-	-
12 <b>Profit/(Loss) from discontinuing operations (after tax) (10-11)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
13 <b>Profit from the Period</b>	<b>46.43</b>	<b>130.60</b>	<b>37.96</b>	<b>180.27</b>	<b>613.64</b>
14 Other Comprehensive Income (OCI) - Net of Taxes	(5.79)	3.26	6.06	(3.10)	3.80
15 Income Tax effect on Other Comprehensive Income	-	-	-	-	-
16 <b>Total Comprehensive Income (13+14+15)</b>	<b>40.64</b>	<b>133.86</b>	<b>44.02</b>	<b>177.17</b>	<b>617.44</b>
17 <b>Paid up equity share capital of Rs. 10/- each.</b>	<b>130.73</b>	<b>130.73</b>	<b>130.73</b>	<b>130.73</b>	<b>130.73</b>
18 Earning per equity share:					
(1) Basic	3.55	9.99	2.90	13.79	46.94
(2) Diluted	3.55	9.99	2.90	13.79	46.94

**Statement of Assets and Liabilities**

Particulars	(Rs. In Lakhs)			
	As at 31.03.20 Audited	As at 31.03.19 Audited	As at 31.03.20 Audited	As at 31.03.19 Audited
<b>Assets</b>				
<b>Non-current assets</b>				
(a) Property, plant and equipment	2,964.59	2,810.98		
(b) Capital work in progress	-	31.98		
(c) Financial assets				
(i) Loans	16.59	16.59		
(d) Other non-current assets	61.87	47.35		
<b>Total non-current assets</b>	<b>3,043.05</b>	<b>2,906.90</b>		
<b>Current assets</b>				
(a) Inventories	1,348.06	1,572.80		
(b) Financial assets				
(i) Trade receivables	2,272.67	2,230.36		
(ii) Cash and cash equivalents	26.23	27.53		
(c) Current tax assets (Net)	54.69	38.22		
(d) Other current assets	109.97	72.14		
<b>Total current assets</b>	<b>3,811.62</b>	<b>3,941.05</b>		
<b>Total assets</b>	<b>6,854.67</b>	<b>6,847.95</b>		
<b>Equity and Liabilities</b>				
<b>Equity</b>				
(a) Equity share capital	130.73	130.73		
(b) Other equity	3,186.60	3,009.43		
<b>Total equity</b>	<b>3,317.33</b>	<b>3,140.16</b>		
<b>Non-current liabilities</b>				
(a) Financial liabilities				
(i) Borrowings	625.10	703.77		
(b) Provisions	83.11	67.84		
(c) Deferred tax liabilities (net)	316.63	340.74		
<b>Total non-current liabilities</b>	<b>1,024.84</b>	<b>1,112.35</b>		

1. The above results were reviewed and recommended by the Audit Committee and therefore approved by the Board of Directors at its meeting held on 10th July, 2020.
2. The financial results have been prepared in accordance with the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 (Ind AS) prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013, to the extent applicable.
3. In line with IND AS 108 - Operating Segments and on the basis of review of operations being done by the senior management, the operations of the Company fall under Manufacturing of Paper products, which is considered to be the only reportable segment by the management.
4. Figures for the quarters ended March 31, 2020 and 2019, represent the difference between the audited figures in respect of full financial years and the published figures for the nine months ended December 31, 2019, 2018 respectively which were subject to limited review.
5. Due to pandemic of Covid 19 throughout the country and nation lockdown in the last week of March 2020, the company suffer a loss proportionately on the fixed cost such as interest on borrowings and employees salary etc.
6. During the quarter Jan 2020 - Mar 2020. The duplicate share certificate issued of the following share holders as mentioned below:

S. No.	Folio No.	No. of Shares	Name of Share Holder	Old Certificate No.
1.	13235	800	Jai Kishore	8181, 10709
2.	6944	40	M Basavarajappa	8924

7. Revenue from operations for the current year ended are comparable with previous periods, sales for the current year are net of Goods and Services Tax (GST).

Particulars	Quarter Ended 31st March 2019	Quarter Ended 31st Dec 2019	Quarter Ended 31st March 2019	Year Ended 31st March 2020	Year Ended 31st March 2019
	Audited	Unaudited	Audited	Audited	Audited
Sales/Revenue from operations (as reported)	2752.20	3197.16	3548.63	12568.74	14823.40

8. Figures for the previous period have been regrouped/ reclassified wherever necessary to conform to the current period's classification.

Thanking you,  
For and on behalf of Sangal Papers Limited,  
Sd/-  
Himanshu Sangal  
Managing Director  
DIN - 00091324  
Place: Mawana  
Dated : 10th July 2020

**ફોર્મ નંબર ચુઆરસી - ૨**

અધિનિયમના અધ્યાય XXXI ના ભાગ 1 હેઠળ નોંધણી અંગેની જોડવામાં બાલતની જાહેરાત (કંપની અધિનિયમ, ૨૦1૩ની કલમ 30૫ (ની) ને અનુલેખીને અને કંપનીઓના નિયમ ૪(1) નીધેલીગણિતે અધિકૃત) નિયમો, ૨૦1૪ અંતર્ગત)

૧. આથી નોટીસ આપવામાં આવે છે કે કંપની એટલે ૨૦1૩ની કલમ ૩૦૬ની પેટા કલમ (૨) અનુસાર, આજ થી બંધ દિવસ પછી પણ વધુમાં વધુ નીચે દિવસની સમાપ્તિ પહેલાં GOYAL CONSTRUCTIONS AND PROJECTS LLP [LLPIN:- AAP-0080] તરફથી એક અરજી રજિસ્ટ્રાર કંપનીઓ, સેન્ટ્રલ રજિસ્ટ્રેશન સેન્ટર, કોર્પોરેટ અહેસંનેનાલય ને કરવાની ધારણા છે કે તે એલએવપી GOYAL CONSTRUCTIONS AND PROJECTS LLP [LLPIN:- AAP-0080] ને અધિકૃત શેર વાળી કંપની તરીકે એટલેમ્ XXXI ના ભાગ એક, કંપની એટલે ૨૦1૩, હેઠળ રજિસ્ટર્ડ કરવામાં આવે.
૨. કંપનીના મુખ્ય મથકો નીચે મુજબ છે.

સમગ્ર ભારત વ્યાપી નીચી કોઈપણ જગ્યાએ, કોલ્કાત્, બિલ્ડર, વિહાર, વિહારકાં, એક્સપ્રેસ, વગેરે તારિકા ધંધો કરવો જેમાં મહાન, મહાનો, એપાર્ટમેન્ટના બાંધકામ, તેને લગત બાંધકામો, તેના લે આઉટ પ્લાન, વિહાર પ્લાન, બાંધવું, ઉભું કરવું, તોડી પાડવું, ફરીથી બાંધવું, ફેરવવું, સમારકામ કરવું અથવા બિલ્ડિંગ સ્ટીમને લાગત કોઈપણ કામ કરવું, કોઈપણ, રસ્તાઓ, હાઈ-વે, ઈમારતો, પુલ, સ્ટેડ, ઘરો, ગેરેજ, ફેક્ટરીઓ, દુકાનો, મથકો, હોટલો, રિસોર્ટ્સ, ઓફિસો, વેરહાઉસ, શોપિંગ મોલ, થિયેટરો અથવા અન્યથા તમામ માળખાગત વિહારને લગતા તમામ પ્રકારના વ્યવહાર કરવા તેમજ તે તમામ બાલતોને લાગતો તમામ પ્રકાર નો ધંધો કરવો જેમાં તમામ પ્રકાર ની વાણિજ્યિક અને રેહોડાં સંપત્તિ, જમીનો, વગેરેના પ્રોજેક્ટનો સમાવેશ થઈ શકે.

૩. ફાઇટ મેમોરેન્ડમ અને આર્ટિકલ ઓફ એસોસિએશનની નકલનું નિરીક્ષણ ૧૦1, દસમો માળ, એટલેમ્ હાઉસ-૪, ૧૦૦ ફૂટ રોડ, સિલચેસ્ટ પ્રોટેલ પંપ પાર્ક, પ્રહલાદ નગર, અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૫, ગુજરાત ભાષામાંથી થઈ શકશે.
૪. આથી નોટીસ આપવામાં આવે છે કે કોઈપણ વ્યક્તિ જેને આ અરજી સાથે વાંધો હોય, તેવી વ્યક્તિ તેની લિખિત વાંધા અરજી રજિસ્ટ્રાર, સેન્ટ્રલ રજિસ્ટ્રેશન સેન્ટર (સીઆરસી), ભારતીય કોર્પોરેટ બાલતની સંસ્થા (સાઈઆઈબીએ), પોસ્ટ નંબર ૬૫૭, સેન્ટર ૫, આઈએમટી માસ્ટર, શુભલા ગુડવંચ (હાંસાલા), પિલ હોલ- ૧૨૨૦૫૦, આ નોટીસ ની જાહેરાત ની તારીખથી વધુમાં વધુ એવર્સ દિવસ માં મોકલી આપવાની રહેશે અને તેની એક કોપી ઉપરોક્ત કંપનીને તેની રજિસ્ટર્ડ ઓફિસ મોકલી આપવાની રહેશે.

તારીખ ૧૧ મી જુલાઈ ૨૦૨૦  
અરજદારનું નામ  
For Goyal Constructions and Projects LLP  
Sd/-  
મુકેશ અગ્રવાલ  
સહિય અગ્રવાલ  
ડીઆઈએન : ૦૦૧૯૫૫૫૨  
નિયુક્ત ભાગીદાર  
Sd/-  
સંદિપ અગ્રવાલ  
ડીઆઈએન : ૦૦૧૯૫૫૪૪  
નિયુક્ત ભાગીદાર

**NOTICE FOR LOSS OF SHARE CERTIFICATE**

Minakshi Jha and Girja Shankar Jha residing at B-19/122, Associated Society, near Akota Garden, Akota Vadodara - 390020, shareholder of Housing Development Finance Corporation Limited (HDFC) hereby give notice that the original share certificate no. 10321 bearing distinctive nos. 13784736 to 13786735 for 2000 equity shares of F.V. R.2 under folio no. M0044586 issued to us by HDFC, has lost by me and we are giving an application to HDFC for issuance of duplicate share certificate in lieu thereof. Any person, who is in possession of said share certificate and / or has any objection to the issue of the duplicate share certificate as aforesaid, is requested to contact HDFC Limited, Investor Services Department, Ramon House, 5th Floor, H.T. Parekh Marg, 169 Backbay Reclamation, Churchgate, Mumbai-400 020, within SEVEN (7) days from the date of this Notice, failing which HDFC will proceed to issue duplicate share certificate, in accordance with the Companies (Issuance of Share Certificate) Rules, 1960.

Sd/-  
Place : Vadodara (Minakshi Jha and Girja Shankar Jha)  
Date : 10.07.2020

**ભારતીય કન્ટેનર નિગમ લિમિટેડ**  
CONCOR CORPORATION OF INDIA LTD.

Tender No.		COMIT126120101
Name of Work	Open Tender in Two Bid System On-premise turnkey based Supply, Installation, Commissioning and Implementation of Hardware, Software, Licenses and Network along with one-year warranty and post warranty AMC and ATS support for one-year for setting up Disaster Recovery Site at Milhan, Nagpur	
Estimated Cost	Rs. 89,63,34,885.41/-	
Completion Period	180 Days (period for supply, installation, implementation, commissioning, integration, migration, testing, acceptance and one-month successful run), one-year warranty, first year ATS and one-year AMC & ATS.	
Earnest Money Deposit	Rs. 10,00,00,000/- inclusive of all taxes and duties through e-payment.	
Cost of Document	Rs. 1,000,000/- plus taxes as applicable. (Non-refundable) through e-payment.	
Tender Processing Fee	Rs. 4,50,000/- plus taxes as applicable.	
Date of Sale (Online)	From 13/07/2020 11:00 hrs. to 12/08/2020 (up-to 16:00 hrs.)	
Pre-Bid Meeting	23/07/2020 at 15:00 hrs.	
Date & Time of submission of tender	13/08/2020 upto 12:00 hrs.	
Date & Time of opening of tender	14/08/2020 at 11:30 hrs.	

For financial eligibility criteria, experience with respect to similar nature of work, etc, please refer to detailed tender notice available on website www.concordia.com, but the complete tender document can be downloaded from website www.tenderzard.com/CCL only. Further, Contingendum/Addendum to this Tender, if any, will be published on website www.concordia.com, www.tenderzard.com/CCL and Central Procurement Portal (CPP) only. Newspaper press advertisement shall not be issued for the same. Executive Director (MIS)

This addendum to the Letter of Offer ("Addendum") is for information purposes only and does not constitute an offer or an invitation or a recommendation to purchase, to hold, to subscribe or sell either entitlements or securities. All capitalized terms used herein and not defined herein shall have the meaning assigned to them in the letter of offer dated March 18, 2020 ("Letter of Offer") and the addendum to the Letter of Offer dated June 23, 2020, filed with the stock exchanges, namely BSE Limited ("BSE") and National Stock Exchange of India Limited ("NSE") and together with BSE, "Stock Exchanges") and the Securities and Exchange Board of India ("SEBI").

**ARVIND FASHIONS LIMITED**

Our Company was incorporated as Arvind J&M Limited on January 5, 2016, as a public limited company under the Companies Act, 2013, pursuant to a certificate of incorporation issued by the Registrar of Companies, at Ahmedabad, Gujarat (the "RoC"). Pursuant to a resolution of our Shareholders dated September 26, 2016, the name of our Company was changed to Arvind Fashions Limited and a fresh certificate of incorporation was issued by the RoC on October 14, 2016. For details, including reasons for changes in the name and registered office of our Company, see "History and Certain Corporate Matters" on page 133 of the Letter of Offer.

Corporate Identity Number: L52399GJ2016PLC085595  
Registered Office: Main Building, Arvind Limited Premises, Naroda Road, Ahmedabad - 380 025, Gujarat, India;  
Telephones: +91-79-30133000  
Corporate Office: 8th Floor, Du Parc Trinity, 17, M G Road, Bengaluru - 560 001, Karnataka, India | Telephone: +91-80-41550650  
Contact Person: S B Srinivas Kumar, Company Secretary and Compliance Officer  
Email: investor.relations@arvindbrands.co.in | Website: www.arvindfashions.com

**PROMOTERS OF OUR COMPANY**  
AURA SECURITIES PRIVATE LIMITED, AURA BUSINESS VENTURES LLP, SANJAYBHAI SHRENIKHBHAI LALBHAI, JAYSHREEBEN SANJAYBHAI LALBHAI, PUNIT SANJAY LALBHAI, KULIN SANJAY LALBHAI, POORVA PUNIT LALBHAI, JAINA KULIN LALBHAI, IISHAAN PUNIT LALBHAI, ANANYAA KULIN LALBHAI AND RUHANI PUNIT LALBHAI

ISSUE OF UP TO 3,99,79,347 EQUITY SHARES WITH A FACE VALUE OF ₹ 4 EACH ("RIGHTS EQUITY SHARES") OF OUR COMPANY FOR CASH AT A PRICE OF ₹ 100 EACH INCLUDING A SHARE PREMIUM OF ₹ 96 PER RIGHTS EQUITY SHARE ("ISSUE PRICE") FOR AN AGGREGATE AMOUNT UP TO ₹ 399.79 CRORES ON A RIGHTS BASIS TO THE EXISTING EQUITY SHAREHOLDERS OF OUR COMPANY IN THE RATIO OF 62 RIGHTS EQUITY SHARES FOR EVERY 91 FULLY PAID-UP EQUITY SHARES HELD BY THE EXISTING EQUITY SHAREHOLDERS ON THE RECORD DATE, THAT IS ON MARCH 18, 2020 (THE "ISSUE"). THE ISSUE PRICE FOR THE RIGHTS EQUITY SHARES IS 25 TIMES THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES. FOR FURTHER DETAILS, SEE "TERMS OF THE ISSUE" ON PAGE 106 OF THE LETTER OF OFFER AND THE ADDENDUM TO LETTER OF OFFER DATED JUNE 23, 2020 ("ADDENDUM TO LOF").

**NOTICE TO THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF ARVIND FASHIONS LIMITED (THE "COMPANY")**  
This Addendum is being issued pursuant to provisions of Schedule IX (4) of the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018 as amended ("SEBI ICDR Regulations"). The Eligible Equity Shareholders of our Company should note the following development taken place post filing of the Letter of Offer:  
Pursuant to approval granted by Board of Directors of our Company and of Arvind Lifestyle Brands Limited ("ALBL"), our wholly owned subsidiary, at their meetings held on February 21, 2020 and by shareholders of our Company vide special resolution dated March 26, 2020 passed through postal ballot, our Company and ALBL have executed business transfer agreements dated July 08, 2020 ("Business Transfer Agreements") with Arvind Youth Brands Private Limited ("AYBL"), subsidiary of our Company, to transfer the wholesale and retail trading business under "Flying Machine" brand to AYBL, on a going concern basis on terms and conditions mentioned therein. Pursuant to the Business Transfer Agreements, our Company and ALBL will receive lumpsum consideration of ₹ 61.90 crores and ₹ 151.35 crores (subject to working capital adjustments), respectively upon transfer and vesting of the business undertaking under "Flying Machine" brand.  
Further, our Company has on July 09, 2020 entered into a Share Purchase Agreement and a Shareholders Agreement with AYBL, ALBL and Flipkart India Private Limited wherein, Flipkart India Private Limited agreed to invest ₹ 260 crores to acquire a significant minority stake by acquiring the equity share and compulsory convertible preference shares of AYBL, which will own the Flying Machine brand pursuant to the Business Transfer Agreements. The transaction is subject to customary conditions precedent.  
The copy of this Addendum will be filed with the Stock Exchanges and SEBI and will be available on website of SEBI at www.sebi.gov.in, website of Stock Exchanges i.e. BSE at www.bseindia.com and NSE at www.nseindia.com, the website of the Lead Manager at www.vivvo.net and the website of our Company at www.arvindfashions.com.  
The Letter of Offer, Abridged Letter of Offer, the Addendum to LOF and all other Issue related materials shall be read in conjunction with this Notice. Unless otherwise specified, all capitalized terms used herein shall have the same meaning ascribed to such terms in the Letter of Offer and the Addendum to LOF.

FOR ARVIND FASHIONS LIMITED  
Sd/-  
Vijay Kumar B S  
Company Secretary & Compliance Officer  
Disclaimer: Our Company is proposing, subject to receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to issue Equity Shares on a rights basis and has filed a Letter of Offer with the Securities and Exchange Board of India and Stock Exchanges. The Letter of Offer is available on the website of SEBI at www.sebi.gov.in, website of Stock Exchanges where the Equity Shares are listed i.e. BSE at www.bseindia.com and NSE at www.nseindia.com and the website of the Lead Manager at www.vivvo.net. Investors should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and are requested to refer to the Letter of Offer including the section "Risk Factors" beginning on page 22 of the Letter of Offer. This announcement has been prepared for publication in India and may not be released in the United States. This announcement does not constitute an offer of Equity Shares for sale in any jurisdiction, including the United States, and any Equity Shares described in this announcement may not be offered or sold in the United States absent registration under the US Securities Act of 1933, as amended, or an exemption from registration. There will be no public offering of Equity Shares in the United States.



**EXTRACT OF STANDALONE / CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED ON MARCH 31, 2020**

Particulars	Standalone				Consolidated			
	Quarter ended 31 March 2020 (Unaudited)	Quarter ended 31 December 2019 (Unaudited)	Quarter ended 31 March 2019 (Unaudited)	Year ended 31 March 2020 (Audited)	Year ended 31 March 2019 (Audited)	Quarter ended 31 March 2020 (Unaudited)	Quarter ended	